

13



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 26, 1968/मघ 6, 1890

No. 14]

NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 26, 1968/MAGHA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January 1969

No. 5-Pres/69.—The President is pleased to make the following awards:—

PADMA VIBHUSHAN

Shri Dattatraya Shridhar Joshi, Formerly Cabinet Secretary, Government of India.

Shri Ghananand Pande, Formerly Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Government of India, Chairman, Hindustan Steel and Vice-Chancellor, Roorkee University.

Dr. Hargobind Khorana, Professor of Life Sciences, Institution of Enzyme Research, University of Wisconsin (USA).

Dr. Mohan Sinha Mehta, Educationist, Udaipur, Rajasthan.

Shri Rajeshwar Dayal, Formerly Foreign Secretary, Government of India.

PADMA BHUSHAN

Dr. Adinath Lahiri, Director, Central Fuel Research Institute, Dhanbad, Bihar.

Shri Gobind Behari Lal, Journalist, San Francisco, U. S. A.

Professor Haroon Khan Sherwani, Educationist, Hyderabad, Andhra Pradesh.

- Shri Kasturbhai Lalbhai, Industrialist, Ahmedabad, Gujarat.
 Shri Kasturiswami Sreenivasan, Textile Technologist, Coimbatore, Tamil Nadu.
 Shrimati Kesarbai Kerkar, Musician, Poona, Maharashtra.
 Shri Keshav Prasad Goenka, Industrialist, Calcutta, West Bengal.
 Dr. Keshavrao Krishnarao Datey, Physician, Bombay, Maharashtra.
 Shri Krishna Chander, Writer, Bombay, Maharashtra.
 Shri Krishna Ramchand Kriplani, Secretary, Sahitya Akademi, New Delhi.
 Kumari Lata Dinanath Mangeshkar, Musician, Bombay, Maharashtra.
 Professor Mohanlal Lalloobhai Dantwala, Economist, Bombay, Maharashtra.
 Dr. Narayan Bhikaji Parulekar, Editor-in-Chief, Dally Sakal, Poona, Maharashtra.
 Shri Naval Hormusji Tata, Industrialist, Bombay, Maharashtra.
 Dr. Niharranjan Ray, Director, Indian Institute of Advanced Studies, Simla, Himachal Pradesh.
 Dr. Prafulla Kumar Sen, Surgeon, Bombay, Maharashtra.
 Shri Prithvi Raj Kapoor, Actor, Bombay, Maharashtra.
 Shri Rahim-ud-din Khan Dagar, Musician, New Delhi.
 Shri Raja Rao, Writer, Texas, U. S. A.
 Shri Raman Madhavan Nair, Editor, The Tribune, Ambala Cantt., Haryana.
 Shri Samad Yar Khan "Saghar Nizami", Urdu Poet, New Delhi.
 Shri Semmangudi Srinivasa Iyer, Musician, Madras, Tamil Nadu.
 Shri Subramaniam Sreenivasan Vasana, Film Producer, Madras, Tamil Nadu.
 Dr. Tarasankar Bandopadhyaya, Bengali Novelist, Calcutta, West Bengal.
 Dr. Vallabhadas Vithaldas Shah, Physician, Bombay, Maharashtra.
 Dr. Vatakke Kurupath Narayana Menon, Musicologist, Bombay, Maharashtra.
 Shri Vithalbhaji Jhaveri, Film Producer, Bombay, Maharashtra.
 Shri Vitthal Laxman Phadke *alias* Mamasahab Phadke, Social Worker, Ahmedabad, Gujarat.
 Shri Yeshwant Dinkar Pendharkar, Poet, Poona, Maharashtra.

PADMA SHRI

- Dr. Amrik Singh Cheema, Agriculture Commissioner to the Government of India.
 Shrimati Amrita Pritam, Poetess, New Delhi.
 Dr. Kaviraj Ashutosh Majumdar, Ayurvedic Physician, New Delhi.
 Shri Balraj Sahni, Film Actor, Bombay, Maharashtra.
 Dr. Bal Krishan Anand, Professor, Physiology and Vice-Dean, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
 Colonel Bishan Lal Raina, Director, Central Family Planning Institute, New Delhi.
 Shri Brahm Nath Datta 'Qasir', Urdu Writer and Poet, Amritsar, Punjab.
 Shrimati Byrappa Saroja Devi, Film Actress, Madras, Tamil Nadu.
 Shri Chandrakant Gulabrao Borde, Cricketer, Poona, Maharashtra.
 Shri David Abraham, Film Actor, Bombay, Maharashtra.
 Shri Dhyan Pal Singh, Vice-Chancellor, Agricultural University, Pantnagar, Uttar Pradesh.
 Shri Gajanan Digambar Madgulkar, Poet and Play-wright, Poona, Maharashtra.
 Shri Gopaldas Neogi Chowdhury, Social Worker, Murshidabad, West Bengal.
 Shri Harkisandas Bhagwandas Kapadia, Social Worker, Bombay, Maharashtra.
 Shri Holenarsipuram Govindrao Srinivasa Murthy, Director, Thumba Equatorial Rocket Launching Station, Trivandrum, Kerala.

- Shrimati Indrani Rehman, Dancer, New Delhi.
- Shri Kalyan Singh Gupta, Social Worker, New Delhi.
- Shri Kambali Shalkabdulkhader Gulamohideen Rowther Haja Shareeff, Industrialist, Madras, Tamil Nadu.
- Shri Khwaja Ahmad Abbas, Film Producer, Bombay, Maharashtra.
- Dr. Krishna Gopal Saxena, Homoeopath, New Delhi.
- Shri Kumar Nandan Prasad, Ministry of Home Affairs, Government of India
- Shrimati Lila Indrasen, Social Worker, Pondicherry.
- Shri Mahendra Nath Kapur, Principal, Modern School, New Delhi.
- Shri Mangru Ganu Uikay, Social Worker, Nainpur (Mandla), Madhya Pradesh.
- Dr. Nand Kishore Verma, Surgeon, Gangtok, Sikkim.
- Professor Narayan Sridhar Bendre, Painter, Baroda, Gujarat.
- Dr. Nautam Bhagwanlal Bhatt, Director, Solid State Physics Laboratory, Delhi.
- Shri Nedurumalli Balakrishna Reddi, Social Worker, Vakada (Nellore), Andhra Pradesh.
- Dr. Pandurang Rajaram Ghogrey, Social Worker, Dhulla, Maharashtra.
- Shri Pandurang Vasudeo Gadgil, Writer, Bombay, Maharashtra.
- Shrimati Rajam Ramaswami, Social Worker, Madras, Tamil Nadu.
- Dr. Ram Kumar Caroli, Physician, Willingdon Hospital, New Delhi.
- Shri Ram Lal Rajgarhia, Industrialist, Calcutta, West Bengal.
- Dr. Ramakrishna Ananthakrishnan, Director, Institute of Tropical Meteorology, Poona, Maharashtra.
- Dr. Revanasiddappagouda Basappagouda Patil, Surgeon, Hubli, Mysore.
- Shrimati Roshan Phookan, Social Worker, Gauhati, Assam.
- Shri Sachin Dev Burman, Music Director, Bombay, Maharashtra.
- Shri Sadashiva Rath Sharma, Research Scholar, Puri, Orissa.
- Shrimati Savitri Sahni, Educationist, Lucknow, Uttar Pradesh.
- Shri Shyam Lal Gupta, Philanthropist, Delhi.
- Shri Singannachar Narasimha Swamy, Artist, Mysore.
- Shri Shri Chand Chhabra, President, New Delhi Municipal Committee.
- Shri Srinivasa Natarajan, Educationist, Madras, Tamil Nadu.
- Shri Subodh Chandra Dev, Deputy Commissioner, Mokokchang, Nagaland.
- Shri Sudhir Krishna Mukerji, Secretary, Border Roads Development Board, Government of India.
- Shri Sukhdev, Producer of Documentary Films, Bombay, Maharashtra.
- Shri Surendra Nath Ghosh, Editor, The Pioneer, Lucknow, Uttar Pradesh.
- Dr. Tarapada Basu, Journalist, London, U. K.
- Dr. Teralundur Venkatarama Mahalingam, Historian and Archaeologist, Madras, Tamil Nadu.
- Shri Thiagarajan Muthian, Director, Technical Education, Madras, Tamil Nadu.
- Professor Tirukannapuram Vardachari Ramanujam, Social Worker, Bombay, Maharashtra.
- Shri Upendra Maharathi, Director, Institute of Industrial Designs, Patna, Bihar.
- Shri Vairamuthu Pillai Subbiah Pillai, Tamil Writer, Madras, Tamil Nadu.
- Shri Vullmiri Ramalingaswami, Professor of Pathology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
- Shri Yogeshwar Dayal, Social Worker, Delhi.

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1969

सं० 5—प्रेष/69—राष्ट्रपति निम्नांकित उपाधियां प्रदान करते हैं:—

पद्म विभूषण]

श्री दत्तात्रेय श्रीधर जोशी, भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार ।

श्री घनानन्द पाण्डे, भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मन्त्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष हिन्दुस्तान स्टील तथा उपकुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय ।

डा० हर गोविन्द खुराना, प्रोफेसर जीवन विज्ञान, इन्जाइम अनुसन्धान संस्थान, विस्कॉसिन (संयुक्त राज्य अमेरिका) ।

डा० मोहन सिंह मेहता, शिक्षा शास्त्री, उदयपुर, राजस्थान ।

श्री राजेश्वर दयाल, भूतपूर्व विदेश सचिव, भारत सरकार ।

पद्म भूषण

डा० आदिनाथ लाहिड़ी, निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान, धनबाद, बिहार ।

श्री गोविन्द बिहारी लाल, पत्रकार, सान फ्रांसिस्को, अमेरिका ।

प्रोफेसर हारून खां शेरवानी, शिक्षा शास्त्री, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।

श्री कस्तूरभाई लालभाई, उद्योगपति, अहमदाबाद, गुजरात ।

श्री कस्तुरीस्वामी श्रीनिवासन्, वस्त्र-शिल्प विज्ञानी, बन्नाम्बसूर, तामिलनाडु ।

श्रीमती केसरबाई केरकर, संगीतज्ञा-पूना, महाराष्ट्र ।

श्री केशवप्रसाद गोयनका, उद्योगपति, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल ।

डा० केशवराव कृष्णराव दाते, फिजीशियन, बम्बई, महाराष्ट्र ।

श्री कृष्ण चन्दर, लेखक बम्बई, महाराष्ट्र ।

श्री कृष्ण रामचन्द्र कृपालानी, सचिव, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ।

कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर, संगीतज्ञा, बम्बई, महाराष्ट्र ।

प्रोफेसर मोहनलाल लालूभाई दंतवाला, अर्थशास्त्री, बम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० नारायण भीखाजी पारुलेकर, प्रधान सम्पादक, दैनिक सहकाल, पूना, महाराष्ट्र ।

श्री नवल हरमसजी टाटा, उद्योगपति, बम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० निहारंजन रे, निदेशक, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

डा० प्रफुल्ल कुमार सेन, शल्य चिकित्सक, बम्बई, महाराष्ट्र ।

श्री पुष्पीराज कपूर, अभिनेता, बम्बई, महाराष्ट्र ।

- श्री रहीमुद्दीन खां डागर, संगीतज्ञ, नई दिल्ली ।
 श्री राजाराव, लेखक, टैक्सस, संयुक्त राज्य अमेरिका ।
 श्री रमण माधवन नायर, सम्पादक, ट्रीव्यून, अम्बाला छावनी, हरियाणा ।
 श्री समद यार खां "सागर निजामी", उर्दू शायर, नई दिल्ली ।
 श्री सेम्मतगुडी श्रीनिवास अय्यर, संगीतज्ञ, मद्रास, तामिलनाडू ।
 श्री सुब्रमन्यम् श्रीनिवासन वासन, चलचित्र निर्माता, मद्रास, तामिलनाडू ।
 डा० ताराशंकर बन्दोपाध्याय, बंगाली उपन्यासकार, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल ।
 डा० वल्लभदास विट्ठलदास शाह, फिजिशियन, बम्बई, महाराष्ट्र ।
 डा० बट्टक कुरुपथ नारायण मेनन, संगीत शास्त्रज्ञ, बम्बई-महाराष्ट्र ।
 श्री विट्ठलभाई झवेरी, चलचित्र निर्माता, बम्बई, महाराष्ट्र ।
 श्री विट्ठल लक्ष्मण फडके, उर्फ मामासाहेब फडके, सामाजिक कार्यकर्ता, गुजरात ।
 श्री यशवत दिनकर पेंधारकर, कवि, पूना, महाराष्ट्र ।

पद्य श्री

- डा० अमरीक सिंह चीमा, कृषि आयुक्त, भारत सरकार ।
 श्रीमती अमृता प्रीतम, कवयित्री, नई दिल्ली ।
 डा० कविराज आशुतोष मजूमदार, आयुर्वेदिक चिकित्सक, नई दिल्ली ।
 श्री बलराज साहनी, चलचित्र अभिनेता, बम्बई, महाराष्ट्र ।
 डा० बालकृष्णन् आनन्द, आचार्य, शरीर क्रिया विज्ञान एवं उपाध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।
 कर्नल विशान लाल रैना, निदेशक, केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली ।
 श्री ब्रह्मनाथ दत्त, "कासिर", उर्दू लेखक एवं शायर, अमृतसर, पंजाब ।
 श्रीमती ब्रप्पा सरोजा देवी, चलचित्र अभिनेत्री, मद्रास, तामिलनाडू ।
 श्री चन्द्रकान्त गुलाबराव बोर्डे, क्रिकेट खिलाड़ी, पूना, महाराष्ट्र ।
 श्री डेविड अब्राहम, चलचित्र अभिनेता, बम्बई, महाराष्ट्र ।
 श्री ध्यानपाल सिंह, उप-कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, पल्लनगर, उत्तर प्रदेश ।
 श्री गजानन दिगम्बर मद्गुलकर, कवि और नाटककार, पूना, महाराष्ट्र ।
 श्री गोपालदास नियोगी चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता, मुंशीबाबाद, पश्चिम बंगाल ।
 श्री हरिकृष्णदास भगवानदास कपादिया, सामाजिक कार्यकर्ता, बम्बई, महाराष्ट्र ।
 श्री होलनरसीपुरम गोविन्दराव श्रीनिवास मूर्ति, निदेशक, पुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशन, त्रिचन्द्रम, केरल ।
 श्रीमती इन्द्रानी रहमान, नर्तकी, नई दिल्ली ।
 श्री कल्याणसिंह गुप्त, सामाजिक कार्यकर्ता, नई दिल्ली ।
 श्री कम्बाली शेखअब्दुलकादिर गुलामोद्दीन रोबर हाजा शरीफ, उद्योगपति, मद्रास, तामिलनाडू ।

- श्री ख्वाजा अहमद अन्नास, चलचित्र निर्माता, बम्बई, महाराष्ट्र
 डा० कृष्ण गोपाल सक्सेना, होमियोपैथ, नई दिल्ली
 श्री कुमार नन्दन प्रसाद, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
 श्रीमती लीला इन्द्रसन, सामाजिक कार्यकर्त्री, पांडिचेरी
 श्री हिन्दू नाथ कपूर, प्रधानाचार्य, भाईन स्कूल, नई दिल्ली
 श्री मंगरू गानु उद्दके, सामाजिक कार्यकर्ता, नैनपुरा, (मण्डला), मध्य प्रदेश
 डा० नम्व किशोर वर्मा, शल्य चिकित्सक, गंडोक, सिक्किम
 प्रो० नारायण श्रीधर बेंद्रे, चित्रकार, बडौदा, गुजरात
 डा० नौतम भगवानलाल भट्ट, निदेशक, सौलिड-स्टेट भीतिकी अनुसंधानशाखा, दिल्ली
 श्री नेदुमल्ली बालकृष्ण रेड्डी, सामाजिक कार्यकर्ता, धाकड़ा (नैलूर), आन्ध्र प्रदेश
 डा० पांडुरंग राजाराम घोषे, सामाजिक कार्यकर्ता, घुलियो, महाराष्ट्र
 श्री पांडुरंग वासुदेव गाडगिल, लेखक, बम्बई, महाराष्ट्र
 श्रीमती राजम रामास्वामी, सामाजिक कार्यकर्त्री, मद्रास, तामिलनाडू
 डा० राम कुमार करौली, फिजीशियन, विलिगडन अस्पताल, नई दिल्ली
 श्री रामलाल राजगढ़िया, उद्योगपति, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
 डा० रामकृष्ण अनन्तकृष्णन्, निदेशक, उष्णकटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूना, महाराष्ट्र
 डा० रेवणसिद्दप्पागौडा वासप्पगौडा पाटिल, शल्य चिकित्सक, हुबली, मैसूर
 श्रीमती रोशन फूकन, सामाजिक कार्यकर्त्री, गोहाटी, असम
 श्री सचीन देव वर्मन, संगीत निदेशक, बम्बई, महाराष्ट्र
 श्री सदाशिव रथ शर्मा, रिसर्च स्कालर, उड़ीसा
 श्रीमती सावित्री साहनी, शिक्षा शास्त्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
 श्री श्यामलाल गुप्त, फिलानथूपिस्ट, दिल्ली
 श्री सिगनाचार नरसिंह स्वामी, कलाकार, मैसूर
 श्री श्रीधर छावड़ा, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली
 श्री श्रीनिवास नटराजन, शिक्षा शास्त्री, मद्रास, तामिलनाडू
 श्री सुबोध चन्द्र देव, उप-भ्रायुक्त, मकोकचुंग, नागालैंड
 श्री सुधीर कृष्ण मुकर्जी, सचिव, सीमा सड़क निर्माण बोर्ड, भारत सरकार
 श्री एस० सुखदेव, वृत्त चित्र निर्माता, बम्बई, महाराष्ट्र
 श्री सुरेन्द्र नाथ घोष, सम्पादक, पायनियर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
 डा० तारापब बसु, पत्रकार, लन्दन, (यूनाइटेड किंगडम)
 श्री टैरालन्दुर वैकटराम महासिगम, इतिहासज्ञ एवं पुरातत्ववेत्ता, मद्रास, तामिलनाडू
 श्री त्यागराजन मुथियन, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मद्रास, तामिलनाडू
 प्रोफसर तिरुकुप्पुरम् वर्वाचारी रामानुजम्, सामाजिक कार्यकर्ता, बम्बई, महाराष्ट्र

श्री उपेन्द्र महारथी, निदेशक, औद्योगिक परिरूप संस्थान, पटना, बिहार

श्री वैरामुथु पिल्लै सुब्बिआ पिल्लै, तमिल लेखक, मद्रास, तामिलनाडू

डा० बुलिमिरि रामलिंगस्वामी, प्रोफेसर, पैथालाजी, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली

श्री योगेश्वर दयाल, सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली

नागेन्द्र सिंह,
राष्ट्रपति के सचिव ।

